

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016—पौष 18, शक 1937

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. 2709-स्था. निर्वा.-न.पा.-2015.—नगर पालिक निगम आम निर्वाचन 2014-15 के अंतर्गत निर्वाचन परिणाम की घोषणा "मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र" क्रमांक 58, शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2015 में प्रकाशित निर्वाचन परिणाम में क्र. 19 पर वार्ड क्रमांक 18 (अट्टारह) से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित पार्षद का नाम भूपेन्द्र उर्फ शेखर त्रुटिवश मुद्रित हो गया है. उक्त के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

### संशोधन

क्र.	नगर निगम का नाम जिला का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्र. केवल पार्षद हेतु अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से संबद्धता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर पालिक निगम, इन्दौर, जिला इन्दौर.	पार्षद	18	अट्टारह	भूपेन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस.

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.